

प्रेस नोट थाना कैण्ट गोरखपुर दिनांक 08.09.2022

चोरी की मोटरसाइकिल के साथ दो नफर शातिर चोर/अभियुक्त गिरफ्तार

जनपद गोरखपुर में अपराध एवं अपराधियों पर पूर्ण रूप से अंकुश लगाये जाने हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर द्वारा वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी के लिये चलाये जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर के कुशल मार्ग निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी कैण्ट महोदय के कुशल मार्गदर्शन में श्री शशि भूषण राय प्रभारी निरीक्षक कैण्ट पुलिस की टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अं0सं0 700/2022 धारा 379 भादवि बढोत्तरी धारा 420/411 भादवि व मु0अं0सं0 701/22 धारा 379 भादवि बढोत्तरी धारा 411 भादवि से सम्बन्धित अभियुक्तगण 1.सोनू उर्फ कमलेश पाण्डेय पुत्र स्व0 रामानन्द पाण्डेय निवासी सर्कुलर रोड मैत्रीपुरम बिछिया थाना शाहपुर जनपद गोरखपुर 2. भोला मौर्या पुत्र रामबृक्ष मौर्या निवासी बिछिया पी0ए0सी0 कैम्प थाना शाहपुर जनपद गोरखपुर के कब्जे से चोरी की 02 अदद मोटरसाइकिल बरामद कर अग्रिम विधिक कार्यवाही किया जा रहा है।

संक्षिप्त घटना व पूछताछ विवरण:-

दिनांक 07.09.22 को वादी मुकदमा द्वारा लिखित तहरीर दिया गया कि दिनांक 27.08.22 को जेनिश लाइब्रेरी से मेरी मोटरसाइकिल चोरी हो गयी है तथा वादी मुकदमा द्वारा दिनांक 07.09.22 को आर्यन हास्पिटल के गेट से अपनी पल्सर मोटरसाइकिल चोरी होने के सम्बन्ध में लिखित तहरीर देकर थाना हाजा पर मुकदमा पंजीकृत कराया गया। इस सूचना पर चौकी प्रभारी पैडलेगंज उ0नि0 शम्भू प्रसाद साहनी मय टीम के त्वरित कार्यवाही से वाहन चोर 1.सोनू उर्फ कमलेश पाण्डेय पुत्र स्व0 रामानन्द पाण्डेय निवासी सर्कुलर रोड मैत्रीपुरम बिछिया थाना शाहपुर जनपद गोरखपुर 2. भोला मौर्या पुत्र रामबृक्ष मौर्या निवासी बिछिया पी0ए0सी0 कैम्प थाना शाहपुर जनपद गोरखपुर के कब्जे से चोरी की दो अदद मोटरसाइकिल बरामद किया गया।

अभियुक्तगण द्वारा पूछने पर बता रहे है कि हम दोनो नशे के आदी है हम दोनो मिलकर हास्पिटल, माल, कोचिंग व स्कूल आदि जैसे जगहों से वाहन की चोरी करते है इससे पहले भी हम लोग चोरी के मुकदमें में जेल जा चुके है। साहब इस टीवीएस मोटर साइकिल को हम दोनो ने जेनिस लाइब्रेरी बिलन्दपुर से चोरी किये थे जिसके नम्बर प्लेट पर UP 53 AY8468 था पुलिस से बचने के लिए इसके नम्बर प्लेट के जगह पर भोला मौर्या के पास पहले टी0वी0एस0 मोटरसाइकिल रजि0 UP 53 AN 6342 थी जिसे वह बेच दिया है उसका नम्बर प्लेट बनवाकर लगा दिये है। कल भी हम दोनो मिलकर आर्यन हास्पिटल दाउदपुर के बाहर से एक पल्सर मोटरसाइकिल चोरी किये थे। जिसे सोनू उर्फ कमलेश पाण्डेय की पूर्व पल्सर मोटरसाइकिल थी जिसे नशे के कारण बेच कर नशा में पैसा खर्च किया था ये गाड़ी पल्सर चोरी कर अपनी पल्सर गाड़ी का नम्बर लगाकर चलते और अन्य अपराध कारित करते। सोनू उर्फ कमलेश 01 माह पूर्व ही जेल से छुटा है। यह दोनो शातिर चोर है इनके उपर अनेको मुकदमें पंजीकृत है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1. सोनू उर्फ कमलेश पाण्डेय पुत्र स्व0 रामानन्द पाण्डेय निवासी सर्कुलर रोड मैत्रीपुरम बिछिया थाना शाहपुर जनपद गोरखपुर
2. भोला मौर्या पुत्र रामबृक्ष मौर्या निवासी बिछिया पी0ए0सी0 कैम्प थाना शाहपुर जनपद गोरखपुर

अपराधिक इतिहास:-

सोनू उर्फ कमलेश पाण्डेय पुत्र स्व० रामानन्द पाण्डेय निवासी सर्कुलर रोड मैत्रीपुरम बिछिया थाना शाहपुर जनपद गोरखपुर

1. मु०अ०सं०- 172/20 धारा 307/34/41/411/414 भादवि थाना कैण्ट गोरखपुर
2. मु०अ०सं०- 336/15 धारा 8/22 NDPS ACT थाना खोराबार गोरखपुर
3. मु०अ०सं०- 131/19 धारा 135 भा०वि०अधिनियम थाना शाहपुर जनपद गोरखपुर
4. मु०अ०सं०- 555/19 धारा 379/411 भादवि थाना शाहपुर जनपद गोरखपुर
5. मु०अ०सं०- 877/20 धारा 8/20 NDPS ACT थाना शाहपुर जनपद गोरखपुर
6. मु०अ०सं० - 700/22 धारा 379//420/411 भादवि थाना कैण्ट गोरखपुर
7. मु०अ०सं०- 701/22 धारा 379/411 भादवि थाना कैण्ट गोरखपुर

भोला मौर्या पुत्र रामबृक्ष मौर्या निवासी बिछिया पी०ए०सी० कैम्प थाना शाहपुर जनपद गोरखपुर

1. मु०अ०सं०- 24/22 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना शाहपुर जनपद गोरखपुर
2. मु०अ०सं०- 174/19 धारा 380/411/457/506 भादवि थाना शाहपुर जनपद गोरखपुर
3. मु०अ०सं०- 467/22 धारा 60 आबकारी अधि० थाना शाहपुर जनपद गोरखपुर
4. मु०अ०सं० - 700/2022 धारा 379//420/411 भादवि थाना कैण्ट गोरखपुर
5. मु०अ०सं०- 701/2022 धारा 379/411 भादवि थाना कैण्ट गोरखपुर

बरामदगी-

दो अदद चोरी की मोटरसाईकिल

गिरफ्तारी की टीम-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री शशि भूषण राय थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर
2. उ०नि० शम्भू प्रसाद साहनी चौकी प्रभारी पैडलेगंज थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर
3. उ०नि० शशि किरण सिंह थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर
4. कां० सुजीत यादव थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर
5. कां० सुजीत कुमार II थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर